



# भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 31

12 फरवरी, 2016

संख्या 7

## 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां

(₹ बिलियन)

| मद                                      | 2015      | 2016      |           | घट – बढ़ |          |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
|                                         | 6 फरवरी   | 29 जनवरी  | 5 फरवरी   | सप्ताह   | वर्ष     |
|                                         | 1         | 2         | 3         | 4        | 5        |
| 1 जारी नोट                              | 14,024.41 | 15,626.79 | 15,806.28 | 179.49   | 1,781.88 |
| 1.1 संचलन में नोट                       | 14,024.32 | 15,626.64 | 15,806.10 | 179.46   | 1,781.78 |
| 1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट           | 0.09      | 0.15      | 0.18      | 0.04     | 0.09     |
| 2 जमाराशियां                            |           |           |           |          |          |
| 2.1 केंद्र सरकार                        | 1.00      | 1.01      | 1.01      | –        | –        |
| 2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना               | –         | –         | –         | –        | –        |
| 2.3 राज्य सरकारें                       | 0.42      | 0.42      | 0.42      | –        | –        |
| 2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 3,632.28  | 3,831.87  | 3,897.61  | 65.74    | 265.33   |
| 2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | 33.21     | 34.68     | 35.31     | 0.62     | 2.09     |
| 2.6 अन्य बैंक                           | 190.71    | 213.96    | 213.92    | –0.04    | 23.21    |
| 2.7 अन्य                                | 776.09    | 1,656.40  | 953.47    | –702.93  | 177.38   |
| 3 अन्य देयताएं                          | 7,885.92  | 9,492.26  | 9,646.12  | 153.86   | 1,760.20 |
| कुल देयताएं / आस्तियां                  | 26,544.05 | 30,857.40 | 30,554.14 | –303.25  | 4,010.09 |
| 1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 19,035.69 | 22,347.07 | 22,397.41 | 50.34    | 3,361.72 |
| 2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी          | 1,246.46  | 1,143.47  | 1,201.18  | 57.72    | –45.28   |
| 3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित) | 5,261.97  | 5,579.69  | 5,583.68  | 4.00     | 321.71   |
| 4 ऋण और अग्रिम                          |           |           |           |          |          |
| 4.1 केंद्र सरकार                        | –         | –         | –         | –        | –        |
| 4.2 राज्य सरकारें                       | 12.68     | 2.37      | 8.64      | 6.27     | –4.04    |
| 4.3 नाबार्ड                             | –         | –         | –         | –        | –        |
| 4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 819.68    | 1,535.30  | 1,119.31  | –415.99  | 299.63   |
| 4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | –         | 0.35      | 0.35      | –        | 0.35     |
| 4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक          | –         | –         | –         | –        | –        |
| 4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक            | –         | –         | –         | –        | –        |
| 4.8 अन्य                                | 43.43     | 56.63     | 51.73     | –4.90    | 8.30     |
| 5 खरीदे और भुनाए गए बिल                 |           |           |           |          |          |
| 5.1 वाणिज्यिक                           | –         | –         | –         | –        | –        |
| 5.2 खज़ाना                              | –         | –         | –         | –        | –        |
| 6 निवेश                                 | 13.20     | 13.20     | 13.20     | –        | –        |
| 7 अन्य आस्तियां                         | 110.92    | 179.32    | 178.64    | –0.69    | 67.71    |

## 2. विदेशी मुद्रा भंडार

| मद                                        | 5 फरवरी 2016 को |                  | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |                |                          |                |                |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                           |                 |                  | सप्ताह                     |                | मार्च 2015 की समाप्ति पर |                | वर्ष           |                 |
|                                           | ₹ बिलियन        | मिलि.अम. डॉलर    | ₹ बिलियन                   | मिलि.अम. डॉलर  | ₹ बिलियन                 | मिलि.अम. डॉलर  | ₹ बिलियन       | मिलि.अम. डॉलर   |
|                                           | 1               | 2                | 3                          | 4              | 5                        | 6              | 7              | 8               |
| <b>1 कुल भंडार</b>                        | <b>23,639.4</b> | <b>351,484.6</b> | <b>111.2</b>               | <b>2,332.2</b> | <b>2,263.0</b>           | <b>9,846.2</b> | <b>3,237.6</b> | <b>21,271.2</b> |
| 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 22,076.4        | 328,438.3        | 50.1                       | 1,807.2        | 2,221.8                  | 11,114.8       | 3,234.2        | 23,480.2        |
| 1.2 स्वर्ण                                | 1,201.2         | 17,696.7         | 57.7                       | 456.6          | 9.6                      | -1,341.3       | -45.3          | -2,486.5        |
| 1.3 विशेष आहरण अधिकार                     | 273.2           | 4,039.9          | 2.5                        | 51.6           | 23.8                     | 54.7           | 20.5           | -54.4           |
| 1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति | 88.6            | 1,309.7          | 0.9                        | 16.8           | 7.8                      | 18.0           | 28.2           | 331.9           |

## 3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ बिलियन में)

| 05 फरवरी 2016 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ = ₹ 3,787.38 बिलियन | 2016     |          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                            | 23 जनवरी | 24 जनवरी | 25 जनवरी | 26 जनवरी | 27 जनवरी | 28 जनवरी | 29 जनवरी | 30 जनवरी | 31 जनवरी | 1 फरवरी | 2 फरवरी | 3 फरवरी | 4 फरवरी | 5 फरवरी |
|                                                                                                            | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष                                                               | 3,808.0  | 3,808.0  | 3,758.9  | 3,758.9  | 3,828.9  | 3,880.2  | 3,832.0  | 3,878.0  | 3,878.0  | 3,855.6 | 3,795.6 | 3,800.7 | 3,788.0 | 3,897.7 |
| औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष                                          | 100.5    | 100.5    | 99.2     | 99.2     | 101.1    | 102.5    | 101.2    | 102.4    | 102.4    | 101.8   | 100.2   | 100.4   | 100.0   | 102.9   |

## 4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ बिलियन)

| मद                                             | 22 जनवरी 2016<br>को बकाया | पखवाड़ा       | निम्नलिखित अवधि में घटबढ़ |                |                |                |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                |                           |               | वित्त वर्ष में अब तक      |                | वर्ष-दर-वर्ष   |                |
|                                                |                           |               | 2014-15                   | 2015-16        | 2015           | 2016           |
|                                                | 1                         | 2             | 3                         | 4              | 5              | 6              |
| <b>1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं</b>      |                           |               |                           |                |                |                |
| 1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां        | 1,572.6                   | 26.8          | 276.8                     | 470.6          | 341.7          | 518.6          |
| 1.2 बैंकों से उधार                             | 535.9                     | -6.7          | 22.0                      | 137.7          | 20.8           | 164.2          |
| 1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं                | 186.1                     | -54.2         | -52.5                     | 124.7          | 10.8           | 103.6          |
| <b>2 अन्य के प्रति देयताएं</b>                 |                           |               |                           |                |                |                |
| 2.1 कुल जमाराशियां                             | 92,700.1                  | -78.3         | 6,355.3                   | 7,367.3        | 8,165.8        | 9,289.2        |
| 2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                         |                           | -0.1          | 8.2                       | 8.6            | 10.9           | 11.1           |
| 2.1.1 मांग                                     | 8,212.3                   | -111.3        | 234.1                     | 272.0          | 481.3          | 839.0          |
| 2.1.2 मीयादी                                   | 84,487.8                  | 33.0          | 6,121.2                   | 7,095.2        | 7,684.6        | 8,450.1        |
| 2.2 उधारियां                                   | 2,992.8                   | 30.9          | -56.6                     | 734.1          | -185.9         | 839.0          |
| 2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं                | 4,549.0                   | 82.9          | -9.3                      | -23.0          | 318.5          | 175.0          |
| <b>3 रिज़र्व बैंक से उधार</b>                  | <b>1,619.4</b>            | <b>395.0</b>  | <b>681.7</b>              | <b>37.4</b>    | <b>799.8</b>   | <b>521.5</b>   |
| <b>4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि</b> | <b>4,425.5</b>            | <b>63.7</b>   | <b>384.3</b>              | <b>161.2</b>   | <b>324.9</b>   | <b>419.1</b>   |
| 4.1 उपलब्ध नकदी                                | 617.6                     | 9.9           | 61.0                      | 84.1           | 71.5           | 97.9           |
| 4.1 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि               | 3,807.9                   | 53.8          | 323.2                     | 77.1           | 253.3          | 321.2          |
| <b>5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां</b>       |                           |               |                           |                |                |                |
| 5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष                     | 1,817.5                   | -7.7          | 226.1                     | 443.4          | 354.7          | 529.1          |
| 5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि         | 244.6                     | 1.8           | -62.9                     | 18.7           | -36.0          | 29.4           |
| 5.3 बैंकों को अग्रिम                           | 271.9                     | -9.2          | -34.3                     | 82.8           | 0.1            | 138.8          |
| 5.4 अन्य आस्तियां                              | 499.4                     | 48.4          | -142.2                    | 70.9           | -118.1         | 198.9          |
| <b>6 निवेश</b>                                 | <b>27,125.5</b>           | <b>-275.6</b> | <b>2,774.0</b>            | <b>2,207.2</b> | <b>2,794.3</b> | <b>2,223.3</b> |
| 6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                         |                           | -1.0          | 12.5                      | 8.9            | 12.6           | 8.9            |
| 6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में                    | 27,098.7                  | -281.1        | 2,771.5                   | 2,201.2        | 2,792.9        | 2,215.3        |
| 6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में             | 26.8                      | 5.5           | 2.5                       | 6.1            | 1.4            | 8.0            |
| <b>7 बैंक ऋण</b>                               | <b>70,903.3</b>           | <b>94.9</b>   | <b>3,698.3</b>            | <b>5,539.0</b> | <b>5,881.9</b> | <b>7,264.0</b> |
| 7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                         |                           | 0.1           | 6.2                       | 8.5            | 10.2           | 11.4           |
| 7 क.1 खाद्य ऋण                                 | 1,021.9                   | 20.9          | 45.5                      | 77.7           | -87.8          | -8.1           |
| 7 क.1 खाद्येतर ऋण                              | 69,881.4                  | 74.1          | 3,652.8                   | 5,461.4        | 5,969.7        | 7,272.1        |
| 7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट                | 68,707.9                  | 111.8         | 3,768.3                   | 5,584.0        | 5,830.2        | 7,248.8        |
| 7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए                        | 266.6                     | -4.0          | -35.9                     | -77.5          | -42.5          | -81.9          |
| 7 ख.3 भुनाए गए                                 | 1,305.3                   | 0.3           | 46.3                      | 105.4          | 132.5          | 153.3          |
| 7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए                      | 212.0                     | -14.0         | -20.6                     | -29.2          | -4.2           | -30.4          |
| 7 ख.5 भुनाए गए                                 | 411.5                     | 0.8           | -59.8                     | -43.7          | -34.2          | -25.8          |

## 5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

| मद/समाप्त सप्ताह                                    | 2015        | 2016      |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                     | 6 फरवरी     | 8 जनवरी   | 15 जनवरी  | 22 जनवरी  | 29 जनवरी  | 5 फरवरी   |
|                                                     | 1           | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| <b>अनुपात</b>                                       |             |           |           |           |           |           |
| आरक्षित नकदी निधि अनुपात                            | 4.00        | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      |
| सांविधिक चलनिधि अनुपात                              | 22.00       | 21.50     | 21.50     | 21.50     | 21.50     | 21.50     |
| नकदी-जमाराशि अनुपात                                 | 4.90        | 4.70      | ..        | 4.77      | ..        | ..        |
| ऋण-जमाराशि अनुपात                                   | 76.11       | 76.32     | ..        | 76.49     | ..        | ..        |
| वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात                         | 59.08       | 73.12     | ..        | 75.18     | ..        | ..        |
| निवेश-जमाराशि अनुपात                                | 29.86       | 29.53     | ..        | 29.26     | ..        | ..        |
| वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात                      | 41.49       | 33.35     | ..        | 29.96     | ..        | ..        |
| <b>दरें</b>                                         |             |           |           |           |           |           |
| नीतिगत रेपो दर                                      | 7.75        | 6.75      | 6.75      | 6.75      | 6.75      | 6.75      |
| रिवर्स रेपो दर                                      | 6.75        | 5.75      | 5.75      | 5.75      | 5.75      | 5.75      |
| मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर                  | 8.75        | 7.75      | 7.75      | 7.75      | 7.75      | 7.75      |
| बैंक दर                                             | 8.75        | 7.75      | 7.75      | 7.75      | 7.75      | 7.75      |
| आधार दर                                             | 10.00/10.25 | 9.30/9.70 | 9.30/9.70 | 9.30/9.70 | 9.30/9.70 | 9.30/9.70 |
| सावधि जमा दर >1वर्ष                                 | 8.00/8.75   | 7.00/7.90 | 7.00/7.90 | 7.00/7.90 | 7.00/7.90 | 7.00/7.90 |
| बचत जमाराशि दर                                      | 4.00        | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      |
| मांग मुद्रा दर (भारंकिट औसत)                        | 7.64        | 6.79      | 6.82      | 6.81      | 6.89      | 6.67      |
| 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                   | 8.27        | 7.23      | 7.23      | 7.31      | -         | 7.35      |
| 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                  | ..          | ..        | 7.23      | ..        | 7.23      | ..        |
| 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                  | 8.04        | 7.21      | ..        | 7.21      | ..        | 7.27      |
| 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय                       | 7.72        | 7.59      | 7.66      | 7.64      | 7.64      | 7.68      |
| <b>भारिबैं संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया</b>       |             |           |           |           |           |           |
| आईएनआर-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा) | 61.74       | 66.67     | 67.43     | 67.75     | 67.88     | 67.64     |
| आईएनआर-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)        | 70.79       | 72.53     | 73.39     | 73.41     | 74.07     | 75.73     |
| अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिआ 1-माह               | 7.09        | 6.30      | 7.12      | 6.73      | 6.01      | 6.12      |
| 3-माह                                               | 7.81        | 6.27      | 6.58      | 6.44      | 6.36      | 6.56      |
| 6-माह                                               | 7.52        | 6.31      | 6.38      | 6.32      | 6.22      | 6.37      |

## 6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                 | निम्न को बकाया   |                  | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |          |                      |            |                |            |                 |             |                 |             |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------|----------------------|------------|----------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|                                                    | 2015             | 2016             | पखवाड़ा                    |          | वित्त वर्ष में अब तक |            |                |            | वर्ष-दर-वर्ष    |             |                 |             |
|                                                    |                  |                  |                            |          | 2014-15              |            | 2015-16        |            | 2015            |             | 2016            |             |
|                                                    | 31 मार्च         | 22 जनवरी         | राशि                       | %        | राशि                 | %          | राशि           | %          | राशि            | %           | राशि            | %           |
|                                                    | 1                | 2                | 3                          | 4        | 5                    | 6          | 7              | 8          | 9               | 10          | 11              | 12          |
| <b>एम३</b>                                         | <b>105,455.5</b> | <b>114,432.5</b> | <b>2.0</b>                 | <b>-</b> | <b>7,837.8</b>       | <b>8.2</b> | <b>8,977.0</b> | <b>8.5</b> | <b>10,052.9</b> | <b>10.8</b> | <b>11,420.9</b> | <b>11.1</b> |
| <b>1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)</b>                     |                  |                  |                            |          |                      |            |                |            |                 |             |                 |             |
| 1.1 जनता के पास मुद्रा                             | 13,863.5         | 15,177.9         | 83.2                       | 0.6      | 1,051.8              | 8.4        | 1,314.4        | 9.5        | 1,234.7         | 10.1        | 1,667.9         | 12.3        |
| 1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि                     | 8,907.5          | 9,196.2          | -110.8                     | -1.2     | 170.9                | 2.1        | 288.8          | 3.2        | 507.0           | 6.5         | 905.6           | 10.9        |
| 1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि                   | 82,538.7         | 89,931.8         | 48.7                       | 0.1      | 6,551.3              | 8.8        | 7,393.1        | 9.0        | 8,252.0         | 11.3        | 8,804.3         | 10.9        |
| 1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि             | 145.9            | 126.6            | -19.1                      | -13.1    | 63.8                 | 324.9      | -19.3          | -13.2      | 59.2            | 243.0       | 43.1            | 51.6        |
| <b>2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)</b>               |                  |                  |                            |          |                      |            |                |            |                 |             |                 |             |
| 2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण                          | 30,061.6         | 32,814.4         | -506.0                     | -1.5     | 471.8                | 1.5        | 2,752.8        | 9.2        | 919.2           | 3.1         | 1,894.0         | 6.1         |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक                                 | 3,645.2          | 4,086.7          | -207.5                     |          | -2,392.8             |            | 441.4          |            | -2,007.1        |             | -507.6          |             |
| 2.1.2 अन्य बैंक                                    | 26,416.3         | 28,727.8         | -298.5                     | -1.0     | 2,864.5              | 12.2       | 2,311.4        | 8.7        | 2,926.3         | 12.5        | 2,401.6         | 9.1         |
| 2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण                     | 70,395.8         | 76,114.4         | 119.0                      | 0.2      | 4,064.0              | 6.3        | 5,718.6        | 8.1        | 6,170.1         | 9.9         | 7,597.4         | 11.1        |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक                                 | 148.5            | 69.6             | -0.8                       |          | -29.6                |            | -78.8          |            | -22.5           |             | 10.8            |             |
| 2.2.2 अन्य बैंक                                    | 70,247.4         | 76,044.8         | 119.8                      | 0.2      | 4,093.6              | 6.4        | 5,797.4        | 8.3        | 6,192.5         | 9.9         | 7,586.6         | 11.1        |
| 2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां | 22,506.5         | 24,584.2         | 237.3                      | 1.0      | 1,245.3              | 6.5        | 2,077.7        | 9.2        | 1,689.8         | 9.0         | 4,099.4         | 20.0        |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं          | 194.3            | 213.1            | -                          | -        | 17.4                 | 10.0       | 18.8           | 9.7        | 20.6            | 12.1        | 22.3            | 11.7        |
| 2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं       | 17,702.7         | 19,293.6         | -151.7                     | -0.8     | -2,039.3             | -10.7      | 1,590.9        | 9.0        | -1,253.2        | -6.8        | 2,192.2         | 12.8        |
| 2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं        | 7,852.7          | 9,217.6          | 270.9                      | 3.0      | -676.9               | -8.0       | 1,364.9        | 17.4       | -975.6          | -11.2       | 1,461.3         | 18.8        |

## 7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                               | निम्न को बकाया  |                 | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |            |                      |            |                |            |                |             |                |             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|----------------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                                                                  | 2015            | 2016            | सप्ताह                     |            | वित्त वर्ष में अब तक |            |                |            | वर्ष-दर-वर्ष   |             |                |             |
|                                                                  |                 |                 |                            |            | 2014-15              |            | 2015-16        |            | 2015           |             | 2016           |             |
|                                                                  | 31 मार्च        | 5 फरवरी         | राशि                       | %          | राशि                 | %          | राशि           | %          | राशि           | %           | राशि           | %           |
|                                                                  | 1               | 2               | 3                          | 4          | 5                    | 6          | 7              | 8          | 9              | 10          | 11             | 12          |
| <b>आरक्षित मुद्रा</b>                                            | <b>19,284.6</b> | <b>20,292.5</b> | <b>238.8</b>               | <b>1.2</b> | <b>827.4</b>         | <b>4.8</b> | <b>1,007.9</b> | <b>5.2</b> | <b>1,916.6</b> | <b>11.8</b> | <b>2,137.7</b> | <b>11.8</b> |
| <b>1 घटक (1.1+1.2+1.3)</b>                                       |                 |                 |                            |            |                      |            |                |            |                |             |                |             |
| 1.1 संचालन में करेंसी                                            | 14,483.1        | 16,019.2        | 179.5                      | 1.1        | 1,204.4              | 9.3        | 1,536.0        | 10.6       | 1,337.4        | 10.4        | 1,804.0        | 12.7        |
| 1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि                         | 4,655.6         | 4,146.8         | 66.3                       | 1.6        | -440.8               | -10.3      | -508.8         | -10.9      | 508.9          | 15.2        | 290.6          | 7.5         |
| 1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि                           | 145.9           | 126.5           | -7.0                       | -5.2       | 63.8                 | 324.7      | -19.4          | -13.3      | 70.4           | 539.8       | 43.0           | 51.6        |
| <b>2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)</b>                             |                 |                 |                            |            |                      |            |                |            |                |             |                |             |
| 2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण                | 3,645.2         | 4,857.5         | 717.2                      |            | -2,221.7             |            | 1,212.2        |            | -1,804.0       |             | 92.1           |             |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण             | 3,610.4         | 4,849.3         | 710.9                      |            | -2,223.3             |            | 1,238.9        |            | -1,810.3       |             | 96.1           |             |
| 2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण | 2,025.0         | 1,135.7         | -432.4                     |            | 276.6                |            | -889.3         |            | 359.7          |             | 284.3          |             |
| 2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे                        | 1,876.6         | 1,071.0         | -427.5                     |            | 309.1                |            | -805.6         |            | 387.0          |             | 275.4          |             |
| 2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां                  | 21,272.8        | 23,598.3        | 108.1                      | 0.5        | 2,256.7              | 12.5       | 2,325.5        | 10.9       | 2,403.3        | 13.4        | 3,316.4        | 16.4        |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता                          | 194.3           | 213.1           | -                          | -          | 17.4                 | 10.0       | 18.8           | 9.7        | 20.6           | 12.1        | 22.3           | 11.7        |
| 2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता                          | 7,852.7         | 9,512.0         | 154.0                      | 1.6        | -498.4               | -5.9       | 1,659.3        | 21.1       | -937.0         | -10.6       | 1,577.3        | 19.9        |

## 8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ बिलियन)

| दिनांक        | चलनिधि समायोजन सुविधा |             |                     |                            | एमएसएफ | स्थायी चलनिधि सुविधा | ओएमओ (एकमुश्त) |      | निवल अंतर्वेशन<br>(+)/अवशोषण (-)<br>(1+3+5+6+8-2-4-7) |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------------|--------|----------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------|
|               | रेपो                  | रिवर्स रेपो | परिवर्तनशील रेपो दर | परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर |        |                      | विक्रय         | क्रय |                                                       |
|               |                       |             |                     |                            |        |                      |                |      |                                                       |
| 1             | 2                     | 3           | 4                   | 5                          | 6      | 7                    | 8              | 9    |                                                       |
| 1 फरवरी, 2016 | 67.77                 | 41.04       | 150.03              | –                          | 3.10   | –                    | –              | –    | 179.86                                                |
| 2 फरवरी 2016  | 75.09                 | 50.65       | 150.04              | –                          | 0.70   | –                    | –              | –    | 175.18                                                |
| 3 फरवरी 2016  | 32.18                 | 36.96       | –                   | 50.79                      | 0.40   | –1.80                | –              | –    | –56.97                                                |
| 4 फरवरी 2016  | 62.33                 | 19.77       | –                   | 67.95                      | 1.71   | –                    | –              | –    | –23.68                                                |
| 5 फरवरी 2016  | 68.00                 | 20.98       | 265.02              | 27.70                      | 26.00  | 3.80                 | –              | –    | 314.14                                                |
| 6 फरवरी 2016  | 93.34                 | 11.47       | –                   | –                          | 8.90   | –                    | –              | –    | 90.77                                                 |

### 9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

| मद                                                                  | 2014   |         | 2015   |         | निम्नलिखित अवधि में प्रतिशत घट-बढ़ |       |       |
|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------------------|-------|-------|
|                                                                     | नवम्बर | दिसम्बर | नवम्बर | दिसम्बर | माह                                | मार्च | वर्ष  |
|                                                                     | 1      | 2       | 3      | 4       | 5                                  | 6     | 7     |
| <b>1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)</b>                          | 120.1  | 119.4   | 126.6  | 126.1   | - 0.4                              | 4.9   | 5.6   |
| 1.1 ग्रामीण                                                         | 121.1  | 120.3   | 128.3  | 127.9   | - 0.3                              | 5.6   | 6.3   |
| 1.2 शहरी                                                            | 119.0  | 118.4   | 124.6  | 124.0   | - 0.5                              | 4.1   | 4.7   |
| <b>2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100)</b> | 253.0  | 253.0   | 270.0  | 269.0   | - 0.4                              | 5.9   | 6.3   |
| <b>3 थोक मूल्य सूचकांक (2004-05=100)</b>                            | 181.2  | 178.7   | 177.6  | 177.4   | - 0.1                              | 0.7   | - 0.7 |
| 3.1 प्राथमिक वस्तुएं                                                | 250.8  | 244.4   | 256.5  | 257.8   | 0.5                                | 7.9   | 5.5   |
| 3.2 ईंधन और बिजली                                                   | 200.1  | 194.6   | 177.9  | 176.8   | - 0.6                              | - 6.0 | - 9.1 |
| 3.3 विनिर्मित उत्पाद                                                | 155.2  | 154.7   | 153.0  | 152.6   | - 0.3                              | - 0.8 | - 1.4 |

### 10. जमा प्रमाणपत्र

| समाप्त पखवाड़ा  | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                       |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                 |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                 |                          | 1                       | 2                     |
| 25 दिसम्बर 2015 | 2,065.6                  | 299.2                   | 7.25 - 7.78           |
| 8 जनवरी 2016    | 2,002.2                  | 297.8                   | 7.09 - 7.77           |

### 11. वाणिज्यिक पत्र

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                       |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                |                          | 1                       | 2                     |
| 15 जनवरी 2016  | 3,643.7                  | 718.3                   | 6.89 - 11.42          |
| 31 जनवरी 2016  | 3,553.8                  | 513.9                   | 7.30 - 11.18          |

### 12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ बिलियन)

| मद                       | समाप्त सप्ताह   |                  |                 |
|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                          | 6 फरवरी<br>2015 | 29 जनवरी<br>2016 | 5 फरवरी<br>2016 |
|                          | 1               | 2                | 3               |
| 1 मांग मुद्रा            | 201.7           | 236.2            | 195.3           |
| 2 नोटिस/सावधि मुद्रा     | 78.4            | 89.9             | 99.9            |
| 3 सीबीएलओ                | 1,299.9         | 1,223.9          | 1,030.4         |
| 4 बाजार रेपो             | 1,349.9         | 1,688.0          | 1,561.0         |
| 5 कॉरपोरेट बांड में रेपो | -               | 0.9              | 0.4             |

### 13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ बिलियन)

| 5 फरवरी<br>2016 को | प्रमुख धारक |                      |               | कुल     |
|--------------------|-------------|----------------------|---------------|---------|
|                    | बैंक        | प्राथमिक<br>व्यापारी | राज्य सरकारें |         |
|                    | 1           | 2                    | 3             | 4       |
| 14-दिवसीय          | -           | -                    | 750.5         | 757.7   |
| 91-दिवसीय          | 392.3       | 252.8                | 624.4         | 1,722.5 |
| 182-दिवसीय         | 201.1       | 419.5                | 92.8          | 845.3   |
| 364-दिवसीय         | 454.7       | 608.9                | 19.6          | 1,480.1 |
| सीएमबी             | -           | -                    | -             | -       |

### 14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ बिलियन में)

| मद               | जुटाई गई सकल राशि             |                              |         | जुटाई गई निवल राशि            |                              |         |
|------------------|-------------------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------|---------|
|                  | 2015-16<br>(5 फरवरी 2016 तक ) | 2014-15<br>(6 फरवरी 2015 तक) | 2014-15 | 2015-16<br>(5 फरवरी 2016 तक ) | 2014-15<br>(6 फरवरी 2015 तक) | 2014-15 |
|                  | 1                             | 2                            | 3       | 4                             | 5                            | 6       |
| 1. भारत सरकार    | 5,710.0                       | 5,660.0                      | 5,920.0 | 4,266.3                       | 4,309.7                      | 4,532.0 |
| 2. राज्य सरकारें | 2,338.1                       | 1,921.6                      | 2,408.4 | 2,041.6                       | 1,628.1                      | 2,074.6 |

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका [www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762](http://www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762) में उपलब्ध है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री सुनिल कुमार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।